

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण

(राशि मिलियन यूएस\$ में)

मद	2024-25	2024	2025	
		मई	अप्रै.	मई
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1328	108	119	100
1.2 राशि	47800	3669	1907	2739
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	51	2	3	0
2.2 राशि	13384	343	1010	0
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1379	110	122	100
3.2 राशि	61184	4012	2917	2739
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	5.05	4.90	4.20	4.80
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 अस्थिर दर के ऋणों@ के लिए वैकल्पिक संदर्भ दर पर भारत औसत मार्जिन	1.48	2.05	1.41	1.46
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-11.67	0.00-11.67	0.00-10.25	0.00-10.00

उधारकर्ता श्रेणियाँ

I. कॉरपोरेट विनिर्माण	13900	497	817	1201
II. कॉरपोरेट - बुनियादी संरचना	15462	1366	48	717
ए) परिवहन	614	0	0	0
बी) ऊर्जा	6900	434	0	0
सी) पानी और सफाई व्यवस्था	28	0	0	0
डी) संचार	13	0	0	0
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	184	56	45	1
एफ) अन्वेषण, खनन और रिफाइनरी	5356	0	0	305
जी) अन्य उप-क्षेत्र	2367	876	3	411
III. कॉरपोरेट सेवा क्षेत्र	3226	138	337	242
IV. अन्य संस्थाएं	1026	0	8	0
ए) एसईजेड में इकाई	26	0	8	0
बी) सिडबी	0	0	0	0
सी) एक्विजिशन बैंक	1000	0	0	0
V. बैंक	0	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी के अलावा)	0	0	0	0
VII. एनबीएफसी	26318	1424	1530	566
ए) एनबीएफसी - आईएफसी / एएफसी	12389	555	1159	0
बी) एनबीएफसी - एमएफआई	459	52	0	86
सी) एनबीएफसी - अन्य	13470	817	371	480
VIII. गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई)	0	0	0	0
X. अन्य	1252	587	177	13

टिप्पणी: ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों के आधार पर जिन्हें निर्धारित अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या आबंटित की गई है।

@ 01 जुलाई, 2023 से लागू, बेचमार्क दर को बदलकर वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) कर दिया गया है।